

**पत्र सूचना शाखा**  
**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०**

**राज्यपाल ने टाइम्स समूह द्वारा आयोजित 'अचीवर्स आफ वेस्ट यू०पी०' कार्यक्रम में सम्मानित किया**

लखनऊ: 27 दिसम्बर, 2014

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने कहा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। देश के राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विकास कर सकता है क्योंकि प्राकृतिक रूप से सम्पन्न है। यहाँ अनेक नदियाँ हैं। दो दिन पूर्व प्रदेश के स्व० महामना मदन मोहन मालवीय एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी को भारत रत्न प्रदान किया गया है। विकास के लिए रचनात्मक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए विकास में सबकी भागीदारी जरूरी है।

राज्यपाल आज होटल ताज में समाचार पत्र टाइम्स समूह की ओर से आयोजित 'अचीवर्स आफ वेस्ट यू०पी०' कार्यक्रम जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया, में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। टाइम्स समूह ने समाचार संप्रेषण जैसे काम से हटकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा एवं मथुरा जैसे शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पर्यटन सुविधाओं के बढ़ने से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए विकास का माँडल बन सकता है। उन्होंने बताया कि जब वे पेट्रोलियम मंत्री थे तो उन्होंने पेट्रोल में ईथनाल मिलाने का निर्णय लिया था जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हों।

श्री नाईक ने कहा गुणवान लोगों का सम्मान करने से अन्य लोगों में उत्कृष्ट कार्य करने का हौसला बढ़ता है। आज जिन 13 महानुभावों का सम्मान हुआ है वह ऐसी 13 रत्नों की माला बनेगी जिससे प्रदेश की शोभा और बढ़ जायेगी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए ऐसा संकल्प करें जिससे और भी लोग प्रेरित होकर आगे आयें।

सम्मान समारोह में राज्यपाल ने डॉ० के०एन० मोदी फाउण्डेशन के लिए श्री टी०के० मोदी, पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन के लिए श्री पुनीत अग्रवाल, नोयडा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के लिए डॉ० सरोजनी अग्रवाल, अंसल हाउसिंग एवं कंस्ट्रक्शन लि० के लिए श्री सुनील तनेजा, के०पी० ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज के लिए श्री के०पी० अग्रवाल को, विद्या ग्रुप के लिए श्री प्रदीप कुमार जैन, एस०आर०एम० यूनिवर्सिटी के लिए श्री एन० सेन्थिल कुमार, के० इंटरनेशनल किचन एवं इंटीरियर प्राईवेट लि० के लिए श्री कुलदीप सिंह, पंचवटी प्रयोगशाला के लिए श्री पंकज गोयल, एस०ए०एम० मार्केटिंग के लिए श्री आशीष डूडेजा, डॉ० एम०पी०एस० वल्ड स्कूल एण्ड डॉ० एम०पी०एस० ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशनस के लिए श्री ए०के० सिंह, यूरोलाजिस्ट डॉ० सुभाष यादव, एवं आई सर्जन डॉ० प्रतीक अग्रवाल को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

समारोह में टाइम्स समाचार समूह ब्रांच हेड, श्री धनुषवीर सिंह, कुलपति, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, प्रो० आर०के० खण्डाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

-----

